

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 237] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 10, 1979/ अग्रहायण 19, 1901
No. 237] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 10, 1979/AGRAHAYANA 19, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० 64— आई टी सी(पी एन)/79

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1979

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय :—अप्रैल, 1979 से मार्च, 1980 के लिए आयात-नीति

फा० सं० 1/3/आर डी पी/74 ई पी सी (वा०-6).—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक
सूचना सं० 25-आई टी सी (पी एन)/79 दिनांक 3 मई, 1979 के अंतर्गत प्रकाशित यथा
संशोधित अप्रैल, 1979—मार्च, 1980 की आयात-नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नोटों के संकेतित अनुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे:—

1979-80	संदर्भ	संशोधन
की आयात नीति की पृष्ठ सं०		
1	2	3
170	परिशिष्ट—22 “निर्यात उत्पादों की चुनिवा सूची” परिशिष्ट सं० 8.2	इस प्रविष्टि का विवरण इस प्रकार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा “गढ़ा हृन्ना भ्रमक जिसमें कृत्रिम रेजिन से बद्ध मेकानाइट लिपित सामग्री सम्मिलित है।”

सी० वेक्टरमन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 64 ITC (PN) /79

New Delhi, the 10th December, 1979

IMPORT TRADE CONTROL

SUBJECT : Import Policy for April, 1979—March, 1980

F.N. 1/3 REP/74-EPC/(Vol. 6).—Attention is invited to Import Policy for April, 1979—March, 1980 published under the Department of Commerce Public Notice No. 25-ITC(PN)/79 dated the 3rd. May, 1979 as amended.

2. The following amendment shall be made at the appropriate place indicated as under:—

Page No of Policy- Book, 1979-80	Reference	Amendment
1	2	3
170	Appendix 22 ‘Select list of export products, Entry No. 8.2	The description of this entry shall be amended to read as “Fabricated mica including micanite insulating mate- rials bonded with synthetic resins.”

C. VENKATARAMAN
Chief Controller of Imports and Exports